

प्रेषक,  
वीरेन्द्र पाल सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 24 अप्रैल, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में संस्कृत विद्यालयों में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3007/संस्कृत/बजट/2018-2019 दिनांक 22.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-05-107-02 के मानक मद 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन मद में संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 300.00 हजार (रूपये तीन लाख मात्र) को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में दिये गये प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा एवं इस संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुयुवल एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन भी कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए वह स्वीकृत है तथा अन्य मदों में कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. इस शासनादेश का संलग्नक कम्प्यूटर से जनरेट किया गया है, जिनका अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या- S19040110011 दिनांक 22.04.2019 हैं। अतः विभागाध्यक्ष द्वारा भी अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन कम्प्यूटर के माध्यम से ऑन लाईन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII (1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में निहित प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 369 (1)/XLII-1/2019-05(02)2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अरुण कुमार)  
अनु सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

Secretary-Secretary, Sanskrit  
Education(S061)

HOD-Director Sanskrit Education(4624)

आवंटन पत्र संख्या -05(02)2019

अनुदान संख्या-011

आवंटन आई डी-S19040110011

आवंटन पत्र दिनांक-22-APR-2019

लेखा शीर्षक

2202-सामान्य शिक्षा

05-language Development

107-छात्रवृत्ति

02-संस्कृत विद्यालयों में मेधावी छात्रों

को छात्रवृत्ति

00--

Voted

2	2	0	2	0	5	1	0	7	0	2	0	0
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग				
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन					0	300000	0	300000				
योग					0	300000	0	300000				

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,00,000.00 (Rupees Three Lacs Only)**

Approval Status : OPERATOR-CREATION

*(वीरेन्द्र पाल सिंह)*  
संयुक्त सचिव  
संस्कृत शिक्षा विभाग  
उत्तराखण्ड शासन ।